

Class-2
इंद्रधनुष और बूँदें

प्र क) इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं?

उ क) इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं।

प्र ख) इंद्रधनुष को किस बात का घमंड था?

उ ख) इंद्रधनुष को अपने सुंदर रूप पर बहुत घमंड था।

प्र ग) बूँदें इंद्रधनुष की बातें सुनकर चुप क्यों रह जाती थीं?

उ ग) बूँदें इंद्रधनुष की बातें सुनकर चुप रह जाती थीं क्योंकि वह अपने प्रशंसा करते हुए कहता था कि जब गर्मावह निकलता है तो सब चीकत होकर उस ही देखने लगते हैं।

प्र घ) सूर्य ने बूँदों की मदद कैसे की?

उ घ) सूर्य ने अपने आपको बादलों के पीछे छिपा लिया ताकि इंद्रधनुष निकल ही न पाये और बुरस तरह बूँदों की मदद की।

Inside
प्र ङ) इंद्रधनुष कैसे बनते हैं?

उ ङ) सूरज की किरणें जब बूँदों पर पड़ती हैं तो बूँदें उनकी

रोशनी को सात रंगों में बाँटकर बिखरते हैं और इंद्रधनुष बनते हैं।